

# SONI MEDICARE LTD.

38, Kanota Bagh, Jawahar Lai Nehru Marg, JAIPUR-302 004 INDIA CIN No:- L51397RJ1988PLC004569 Telephone: (0141) 5163700, Fax: (0141) 2564392

E-mail: sonihospital@sonihospitals.com

Date: 08/09/2022

The Manager (Department of Corporate Affairs) To, Bombay Stock Exchange Limited (BSE) Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort Mumbai- 400 023

### SCRIP CODE: 539378; SCRIP NAME: SML

Sub: Newspaper publication - Notice of 34th Annual General Meeting (AGM), E-voting information and Book Closure.

Dear Sir/Madam,

Please find attached herewith copies of newspaper clippings of the Notice of 34th Annual General Meeting (AGM) of the company published in English and Hindi language newspaper.

EDICA

S

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For SONI MEDICARE LIMITED

CIN: L51397RJ1988PLC004569

POOJA SHARMA

(Company Secretary & Compliance Officer)

Amount

Outstanding

#### KAPIL RAJ FINANCE LIMITED (CIN - L65929DL1985PLC022788)

Registered Office: 23, II\*FLOOR, North West Avenue, Club Road, West Punjab bagh,

New Delhi-110026. Admin Office: 2048, Platinum Mall, Jawahar Road, Ghatkopar (East), Mumbai-400077. Tel. No: - 91-22-6127 5175, Email:- kapilrajfin@gmail.com, Website:- www.kapiirajfinanceltd.com.

### NOTICE

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, 30th September, 2022 at 2:30 P.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020. 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 and 02/2022 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 05th May 2020, 13th January, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021 and 5th May, 2022, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular(s)") Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12thMay 2020 issued by the Securities Exchange Board of India ("SEBI Circular") and SEBI, vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022("SEBI Circulars") dated 13th May,2022 without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the AGM and the integrated Annual Report for the Financial Year 2010-22 including the financial statements for the financial year ended on 31st March, 2022 ("Annua Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) in accordance with the MCA Circular(s) and SEBI Circular. Member can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of Companies Act, 2013. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be made available on the website of the Company and the website of Stock Exchange BSE Limited www.bseindia.com. And MSEI a

The members are requested to register their e-mail address, in respect of demat holdings with their respective Depository Participant by following the procedure prescribed by the depository participant. Members who have not registered their email address can cast their vote through remote e-voting or through e-voting system during the meeting by following the procedure described in the Notice of AGM.

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and evoting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com For Kapil Raj Finance Limited

Place: Delhi Date: 07.09.2022

Santosh Rani (Whole Time Director)



#### MEFCOM CAPITAL MARKETS LIMITED

CIN:L74899DL1985PLC019749 Regd. Office: Flat No. 18, 5th Floor, Sanchi Building. 77, Nehru Place, New Delhi - 110 019 Phone: +91[11] 46500500 Fax: +91[11] 46500550 E-mail: info@ metcom.in Website: www.metcom.in

### NOTICE

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at E-15, Ansal Villas, Village Sathari, New Delhi-110030 on Friday September 30th, 2022 at 4:30 PM to transact the businesses mentioned in the Notice dated August 10th, 2022 and also uploaded at Investors Section of the website of the Company www.metcomin. As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies [Management and Administration]. Pules, 2015 and Listing Obligations. and Disclosure Requirements Regulations, 2015 (LODR), the Company is providing the facility for voting by electronic means and the businesses set out in the Notice of the Annual General Meeting may be transacted through such voting. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from place other than AGM ("remote-e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The remote E-Voting shall begin on Tuesday, September 27, 2022 at 9:00 AM and closed

on Thursday, September 29, 2022 at 5:00 PM. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronics means or at the AGM is Friday, September 23, 2022. The Members whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cult-officiate only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at AGM through ballot paper The Members who have acquired shares and becoming members of the Company after dispatch of Notice and holding shares on the cut-off date may obtain LOGIN ID and PASSWORD by sending a request at evoling@nsdl.co.in or Mr. Punit Mittall, General Manager, Beetal Financial & Computer Services [P] Ltd, Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi - 110062 Telino, 011-29961281/82 and e-mail-beetal@beetalfina.ndial.com. The Members may participate in the General Meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

Further in terms of SEBI (LODR) and Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register. of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain dosed from Friday, September 23, 2022 to Friday, September 29, 2022 [both days inclusive] for the purpose.

For Mefcom Capital Markets Limited

Place: New Delhi Date: 7h September, 2022

Vijay Mehta Managing Director

### SONI MEDICARE LIMITED

CIN: L51397RJ1988PLC004569

Registered Office: 38, Kanota Bagh, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur, Rajasthan-302004

Website: www.sonihospitals.com; E-mail ID: cs@sonihospitals.com Phone No.: 0141-5163700

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM)

of the Members of Soni Medicare Limited ("The Company") will be held on Friday, September 30, 2022 at 03:00 P.M.at the registered office of the company at 38, Kanota Bagh, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur RJ 302004 IN. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and

Annual report for the financial year 2021-2022, etc. will be sent to all the Members of the Company whose name appears in the Register of Members as on August26, 2022 and whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.sonihospitals.com, and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com.

Manner of registering/updating email addresses by the Members is

In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of Pan Card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to cs@sonihospitals.com

In case shares are held in Demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, Pan (self-attested scanned copy of Pan Card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to cs@sonihospitals.com.

The remote e-voting will commence on Tuesday, 27th September, 2022, at 9.00 A.M. IST and will conclude on Thursday, 29th September, 2022 at 05.00 P.M. IST. Members of the Company, holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2022, may cast their votes by remote e-voting.

Manner of casting vote (s) through e-voting is given below:

\* The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding sharesin dematerialized made, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company www.sonihospitals.com

\* The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Depository Participant (s), may generate login credentials by following instructions givenin the Notes to Notice of AGM.

The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from Saturday, 24th September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (both days inclusive), for the purpose of the a foresaid AGM.

Place: Jaipur

By Order Of Board For Soni Medicare Limited

Pooja Sharma Date: 03rd September, 2022 Company Secretary

# J.K. Cotton Limited

CIN: U17111UP1924PLC000275

Registered Office: Kamla Tower, Kanpur - 208001, Uttar Pradesh, India Telephone: +91 512 2371478 - 81, Fax: +91 512-2332665 Email: abhishek.pandey@jkorg.co.in, Website: www.jkcotton.com

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ABOUT E- VOTING

NOTICE is hereby given that an ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the Members of the Company will be held through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), without physical presence of the Members at a common venue on Friday, September 30, 2022 at 02:00 P.M. to transact the business as set out in the Notice convening AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the applicable rules made thereunder and the MCA General Circular No. 14/2020, dated 08th April, 2020, MCA General Circular No. 17/2020, dated 13th April, 2020, MCA General Circular No. 22/2020 dated 15th June, 2020, MCA General Circular No. 33/2020 dated 28th September, 2020, MCA General Circular No. 39/2020 dated 31st December, 2020, MCA General Circular No. 10/2021 dated 23rd June, 2021, MCA General Circular No.20/2021 dated 08th December, 2021, MCA General Circular No. 02/2022 dated 05th May, 2022 and MCA General Circular No. 03/2022 dated 05th May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs.

In compliance with the aforementioned MCA Circulars, electronic copies of the Notice convening the AGM, to the Members of the Company has already been sent within prescribed timelines by e-mail to all the Members whose email addresses are registered with the Depository Participant ('DP') or the Company. The aforesaid documents are also available on the Company's Website at www.jkcotton.com and on the Website of Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) at www.evotingindia.com. The Company would be providing remote e-voting facility to its members pursuant to the provisions of Section 108 of

the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), as amended, the facility to attend and participate in the AGM through VC / OAVM and the facility of voting through e-voting system during the AGM, to all its Members holding shares, either in physical or dematerialized form, as on Friday, September 23, 2022 (Cut-off date). Any person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat the Notice of AGM as for information purposes only. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Cut-off date. The Company has engaged the services of CDSL for providing these facilities to the Members.

The remote e-voting period commences on Tuesday, September 27, 2022 at 10:00 A.M. and ends on Thursday, September 29, 2022 at 5.00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The Company has appointed M/s. G. K Banthia, Practicing Company Secretary, as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner.

through VC / OAVM facility are provided in the Notice of the AGM and attendance of the Members attending the AGM through VC / OAVM will be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The login credentials and procedure for remote e-voting and e-voting during the AGM have already been sent on the registered e-mail address. Please note that same login credentials are required for participating in the AGM through VC/OAVM and e-voting on resolutions during the AGM.

The Members whose e-mail addresses are not registered with the DPs or the Company, are requested to register their e-mail addresses, for obtaining log-in credentials, by following the instructions below:

 For Physical shareholders- Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the Share Certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to the Company's email id at abhishek.pandey@jkorg.co.in; and investorservices@jaykayenterprises.com.

2. For Demat shareholders -Please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, Client Master or copy of Consolidated Account Statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to the Company's email id at abhishek.pandey@jkorg.co.in; and investorservices@jaykayenterprises.com.

The facility for E-voting during AGM shall be made available to those Members who have not cast their vote by remote e-Voting and are attending the AGM through VC/OAVM. The Members who have already cast their vote by remote evoting prior to the AGM, may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again during the AGM. In case of any queries/grievances relating to voting by electronic means, the Members/Beneficial owners may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Managing Director

### ASSAM POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED A customer centric company

e-Procurement Notice (National Competitive Tender using Two-Envelope e-Procurement Process without Prequalification)

Distribution System Enhancement and Loss Reduction Project and intends to apply a part of the proceeds to make payment under the contract for the following works: Construction of new 33/11 kV substations with construction of new

33kV Terminal Bays, Construction of 33kV & 11kV lines for Distribution System Enhancement and Loss Reduction in Kanch Enhancement and Loss Reduction.

from eligible Contractors. Interested Tenderers may submit tender online at

www.assamtenders.gov.in on or before 07/10/2022.

2nd floor, Bijulee Bhawan, Paltan Bazar, Guwahati-01, Assam Please pay your energy bill on time and help us to serve you better!



Place: Kanpur

### Dhampure Speciality Sugars Limited CIN-L24112UP1992PLC014478

r www.dhampurgreen.com NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 30" ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") of the shareholders of the Company (CIN L24112UP1992PLC014478) will be held on Wednesday, 28th September, 2022 at 01.00 P.M(IST.) to transact the Ordinary Business through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")read with General Circular Numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022, April 8, 2020. April 13, 2020, May 5 2020, January 13,2021 and May 5, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) ,Government of India and Securities Exchange of India (SEBI).

In accordance of aforesaid circulars, the Notice of 30th AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 along with login details for joining the 30th AGM through VC/OAVM facility including e-voting has been sent on Monday, September 05, 2022 through email to all those members of the Company whose e-mail IDs were registered with the Company or Registrar and Transfer Agent or with their Depository Participants (DPs)in accordance with MCA Circulars and SEBI Circular and the same are also available on Company's website (www.dhampurgreen.com), Stock Exchange's Website (www. Bseindia.com) and on website of NSDL

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the register of members and share transfer books of the Company will remain close from 22"September, 2022 to 28"September, 2022 (both days inclusive) for 30° Annual General Meeting of the Company.

In compliance with the Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Reg 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation, 2015, Secretarial Standadrd-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the members are provided with the facility to cast their votes electronically through remote e-voting (Prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services provided by NSDL on all the resolutions set forth in the Notice of the 30th AGM. Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is hereby informed

- . The Ordinary businesses as set out in the Notice of AGM shall be transacted through voting by electronic
- The remote e-voting shall commence on Sunday, 25th September, 2022 (09.00 a.m.) and ends on Tuesday, 27th September, 2022 (05.00 p.m.). No remote e-voting shall be allowed beyond the said date iii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting systems at the
- AGM is Wednesday, September 21, 2022. iv. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date may obtain the login ID and password by sending
- a request at evoting@nsdl.co.in or RTA, MAS Services Limited at info@masserv.com by mentioning their folio no./DP ID and Client ID No. However, if such shareholder is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user id and password can be used for remote e-voting The procedure for remote e-voting by members holding shares in demat mode, physical mode and/or for members who have not registered-their e-mail addresses, is provided in the notice of AGM. The details are

also available on the website of the company at www.dhampurgreen.com To receive the soft copies of notice of AGM along with the annual report for the financial year 2021-

22, instructions for remote e-voting and instructions for participating in the AGM, members who have not yet registered or updated their email addresses are requested to register their e-mail address on accounts@dhampurgreen.com/cs@dhampurgreen.com or with your respective Depository Participant (DP). The company has appointed Mrs. Uma Verma, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section'Instructions for E-Voting in the notice of the AGM..All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Amit Vishal, Asst. Vice President, NSDL, Trade World, A wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013, Email: at evoting@nsdl.co.in, Tel.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. Further, Members may also contact with Mr. Deepanshu Rastogi, Asst. Manager, MAS Services Limited, RTA at info@masserv.com or on Telephone No.: 011-26387281/82/83

> For Dhampure Speciality Sugars Ltd. Aneesh Jain **Company Secretary**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India "SERVING TO YOU SINCE 1911"

# **Central Bank of India**

Regional Office, K.P. Complex, Near Hotel Park Plaza, Ferozepur Road, Ludhiana-141001 (Without Prejudice) APPENDIX IV (See rule 8(1)) POSSESSION NOTICE SYMBOLIC POSSESSION (For Immovable Property/ies)

Date of

Demand

Notice

wasika No. 3523 dated 01.06.2015, Bounded as under: North: Neighbour

33'-2", South: Neighbour 29'-3", East: Street 22' wide 11'-0", West

Neighbour 12'-4". Standing in the name of Sh. Pritam Singh S/o Sh

Date of

Possession

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Central Bank of India under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13(12) read with Rules 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. The Bank issued Demand Notice on the date mentioned against account and stated herein after calling upon the borrower(s)/guarantor(s) to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower(s)/guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read within rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rule 2002 on the dates mentioned against the account. The borrower(s)/guarantor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property/ies. Any dealing with the property will be subject to the charge of Central Bank of India

borrower(s)/guarantor(s) and public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession

for the amount and interest thereon. The borrower(s)/ guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13

of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset(s). Name of the Branch

Description of Borrower/Guarnator Property/ies B/O: Daresi Road, Ludhiana

Gurbachan Singh.

Borrower: 1. Ranjit Singh Property measuring 233.00 sq. yards 10.02.2022 03.09.2022 Rs. 4,10,274/-R/o Guru Nanak Nagar, comprised in Khata No. 136/147, (Rupees Four Lacs Ten Thousand Two VPO Bhamian Kalan, Khasra No. 22//16-25-23//20-21, as Hundred Seventy Four Only), along Ludhaina-141008. 2. Smt. per jamabandi for the year 1998-99, with interest on monthly rests to be Jaspal Kaur W/o Ranjit Situated at Bhamian Kalan, Ludhiana calculated from 31.03.2020 plus

Singh, R/o Guru Nanak as per sale deed wasika No. 9034 further interest and other charges Nagar, VPO Bhamian dated 07.11.2001 and bounded as thereon. Kalan, Ludhiana-141008, under : As per Sale deed : East : Street, West : Neighbour, North Guarantor: Sh. Balbir Neighbour, South: Kapil and others. Standing in the name of Sh. Ranjit Singh S/o Sh. Hari Singh Singh and Smt. Jaspal Kaur W/o Ranjit Singh. R/o Hargobind Nagar, VPO Bhamian Kalan, Ludhiana-141008.

B/O: Daresi Road, Ludhiana Property measuring 40.00 sq. yards 10.02.2022 03.09.2022 Rs. 6,69,331/-Borrower: 1. Pritam Singh, bearing M.C. No. B-XXXI-1276/2F/22 (Rupees Six Lacs Sixty Nine H. No. B-31-1276/2F/22, Comprised in Khata No. 764/821 Thousand Three Hundred Thirty Street No. 10/4, Karamsar Khasra No. 438 as per Jamabandi year One Only) along with interest on Colony, Near H.V.M. Convent 2007-2008, situated at Village Taraf monthly rests to be calculated from School, Subhash Nagar, Saidan, Locality known as Karamsar 29.11.2021 plus further interest and Basti Jodhewal, Ludhiana- Colony, Ludhiana as per sale deed other charges thereon. 141007. 2. Amanjeet Singh Altaan, H. No. B-31-1276/2F/22, Street No. 10/4, Karamsar Colony, Near

Subhash Nagar, Basti Jodhewal, Ludhiana-141007. Guarantor: Parveen Kaur W/o Pritam Singh, H. No. B-31-1276/2F/22, Street No. 10/4, Karamsar Colony, Near H.V.M. Convent School, Subhash Nagar, Basti Jodhewal, Ludhiana-141007 B/O: Daresi Road, Ludhiana Property measuring 36-1/2 sq. yards 10.02.2022 03.09.2022 Rs. 2,92,512/-Borrower: 1.Gajjan plot No. 46-min comprised in Khata No. (Rupees Two Lacs Ninety Two Singh, #46 Shiv Colony, 194, 195, 206, 392, Khatauni No. 204, Thousand Five Hundred Twelve

H.V.M. Convent School.

Wakia Noorwala Road, 205, 216, 410, 411, 412, 413, Khasra Only) along with interest on Ludhiana-141008. 2. Sh. No. 33//18/2, 33//21/2, 33//22, monthly rests to be calculated from Sukhdev Singh S/o Sh. 33//23/1/2, 33//28 min, 33//3 min, 29.11.2021 plus further interest and Gajjan Singh, #46 Shiv 33//7/2, 33//8 min, 33//3 min, 33//8 min other charges thereon. Colony, Wakia Noorwala as per jamabandi for the year 2011-12, situated at Village Noorwala Road, Road, Ludhiana-141008. Kale di Colony, Near Laddu Colony, Ludhiana as per sale deed wasika No 5546 dated 06.06.2016 and bounded as under: East: Neighbour 30', West: Neighbour 30', North

B/O: Daresi Road, Ludhiana Property 1: Plot No. 76 measuring 200 01.07.2022 03.09.2022 Rs. 1,40,27,750/-Borrowers: Smt. Sharda Sq. Yards, Khasra No.15//21/2, (Rupees One Crore Forty Lacs Twenty Jindal (Prop. S.R. 20//1/1-1/2-2-8/2-9-10-11-12/1-12/2- Seven Thousand Seven Hundred Embroidery) W/o Sh. 12/3-13-18-19-20-22/1-22/2-23/1- Fifty Only) along with interest on

Bhupinder Jindal, R/o Plot 23/2, 21//15-16-25, 27//5/1-5/2-16/1- monthly rests to be calculated from No. 76,Star City, Tibba Road, 8/2/1-8/2/2-9/1/1-10/2/12/1/2-13/2/2, other charges thereon. Ludhiana. Guarantor : Sh. Khata no.320/321 as per jamabandi for the year 2006-07, Situated within

Bhupinder Jindal R/o revenue estate of Village - Kuliewal, Tehsil & Distt. Ludhiana vide sale deed Plot No. 76,Star City, Tibba bearing Wasika no.13767 dated 21/02/2003 and bounded as under :- East: Road, Ludhiana. Street, West: Neighbour, North: Other owner, South: Street 50' wide standing in the name of Smt. Sharda Jinadal W/o Sh. Bhupinder Jindal. Property 2. Plot no. 46 measuring 200 Sq. Yards, Khasra No. 15//21/2, 20//1/1-1/2-2-8/2-9-10-11-12/1-12/2-

12/3-13-18-19-20-22/1-22/2-23/1-23/2,21//15-16-25, 27//5/1-5/2-16/1-25/2, 28//1/1/1-1/1/2-2/2-3/1-3/2-8/1-8/2/1-8/2/2-9/1/1-10/2/12/1/2-13/2/2, Khata no.320/321 as per jamabandi for the year 2006-07, Situated within revenue estate of Village - Kuliewal, Tehsil & Distt. Ludhiana vide sale deed bearing Wasika no.14560 dated 19.03.2002 and bounded as under :- East: Plot No. 76(Sharda Jindal), West: Road, South: Street 50' wide, North: Other owner, Standing in the name of Sh. Bhupinder Kumar. Date: 07.09.2022 Place: Ludhiana **Authorised Officer** 

SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD.

Street 11', South: Neighbour 11'. Standing in the name of Sh. Gajjan Singh S/o Sh. Mangal Singh.

#### Registered Office at: - Shivalik Small Finance Bank Ltd.501, Salcon Aurum, Jasola district Centre, New Delhi, South Delhi, Delhi -110025 & Branch Office at Shivalik Small Finance Bank Ltd, 567-569, Choudhary Market, Near Union Bank of India, Sardhana, Meerut.

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower/Guarantor that the below described immovable properties mortgaged to the Shivalik Small Finance Bank Ltd er. Shivalik Mercantile Co-operative Bank Ltd, the Possession of Property was taken on 25th Mar 2022 by the Authorised Officer of Shivalik Small Finance Bank Ltd and will be sold on "AS IS WHERE IS", "WHAT IS THERE IS" and without any recourse basis on 11th Oct 2022, particulars of which are

Demand Notice Date | Description of the

Borrower(s) / Guarantor(s)	and Outstanding Amount as per Demand Notice	Immovable properties	Price	Money Deposit (EMD)
<ol> <li>Mr. Rajiv kumar (Borrower/ Mortgagor) S/o Mr. Om Prakash R/o: - Village Lawar, Lawar Khas Rural, Meerut, U.P250222; 2. Mr. Satish Chand Sinha (Guarantor/ Mortgagor) S/o Late Om Prakash R/o: - Village Lawar, Lawar Khas Rural, Meerut, U.P250222; and 3. Mr. Sanjeev Kumar (Guarantor/ Mortgagor) S/o Mr. Om Prakash R/o Village Lawar, Lawar Khas Rural, Meerut, U.P250222.</li> </ol>	₹.5,15,456.68 (Rupees Five Lakhs Fifteen Thousand Four Hundred Fifty- Six and Sixty-Eight	1.All the piece and parcel of the immovable properties bearing address- Residential Property measuring Area of 430 Sq. mtrs, Situated at Khasra No.1616,1618, of Khata No. 49, Gram Lavda Janali, (Within UAZA within Limits), Pargana Daurala, Tehsil Sardana & District-Meerut, U.P.	Rs. 28,00,000/- (Rupees Twenty-Eight Lakhs Only	10% of Bid Amount i.e Rs.2,80,000/- (Rupees Two Lakhs Eighty Thousand Only

Auction Date and time of opening of Bid: 11 Oct 2022 from 1100 hrs to 1300 hrs

Last Date for Submission of Offers / EMD: 10 Oct 2022 till 5.00 pm.

Important Terms & Conditions of Sale:

Name of the

The property/documents can be inspected on the above given date and time with the Authorised Officer of Bank. Bid document/Form containing all the general terms and conditions of sale can be obtained from Authorised Officer on any working day during office

- hours at Bank's Branch Office mentioned herein above. The intending bidders should send their sealed bids on the prescribed Bid Form to Be Bid to be submitted in sealed envelope mentioning the Bid for Auction property and accompanied with EMD (being 10% of the Bid Amount) by Demand
- Draft drawn in favour of "Shivalik Small Finance Bank Ltd", payable at Sardhana, Meerut on or before 11 Oct 2022 till 5.00 p.m. at the above-mentioned Branch office of Bank. Bids that are not filled up or Bids received beyond last date and time will be considered as invalid Bid and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, the same cannot be withdrawn. The sealed bids will be opened on 11th Oct 2022 at 13:00 hrs -14:00 hrs at the above-mentioned Branch Office of Bank in the presence of the bidders
- present at that time and thereafter the eligible bidders may be given an opportunity at the discretion of the Authorised officer to participate in inter-se bidding to enhance the offer price. The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs.50,000/-. The property will
- not be sold below the Reserve Price set by the Authorised Officer. The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately not later than next working day by Demand Draft
- drawn in favour of Shivalik Small Finance Bank Ltd, payable at SARDHANA, MEERUT and the balance amount of sale price shall be paid by the successful bidder within 30 days from the date of confirmation of sale by Bank. The EMD as well as Sale Price paid by the interested bidders shall carry no interest. The deposit of EMD or 25%, whatever the case may be, shall be forfeited by the Bank, if the successful bidder fails to adhere to the terms of sale or commits any default.
- registration Charges, Conveyance, GST, TDS etc. to be borne by the bidder/purchaser. Bank does not take any responsibility to procure any permission/NOC from any Authority or under any other law in force in respect of property offered or
- The successful bidder shall bear all expenses including pending dues of any Development Authority if any/taxes/utility bills etc. to Municipal Corporation or any other authority/agency and fees payable for stamp duty/registration fee etc. for registration of the 'Sale Certificate'.
- (10) The Authorised Officer reserves the absolute right and discretion to accept or reject any or all the offers/bids or adjourn/cancel the sale without assigning any reason or modify any terms of sale without any prior notice. To the best of its knowledge and information, the Bank is not aware of any encumbrances on the property to be sold except of Bank. Interested parties
- fitness/title of the aforesaid property. For any other information, the Authorised Officer shall not be held responsible for any charge, lien, encumbrances, property tax or any other dues to the Government or anybody in respect to the aforesaid property. The notice is hereby given to the Borrower (s) / Mortgager(s)/ Guarantor(s), to remain present personally at the time of sale and they can bring the intending buyers/purchasers for purchasing the immovable property as described herein above, as per the particulars of Terms and Conditions of Sale.
- (12) The immovable property will be sold to the highest bidder. However, the undersigned reserves the absolute discretion to allow inter se bidding, if
- (14) The Borrower (s) / Mortgager(s) / Guarantor(s) are hereby given STATUTORY 30 DAYS NOTICE UNDER RULE 6(2), 8(6) & 9(1) OF THE SARFAESI ACT, published in Hindi & English Edition of Financial Express and Jansatta, to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with up-to-date interest and expenses within Thirty days from the date of this notice failing which the Secured Asset will be sold as per the terms and conditions mentioned above. In case there is any discrepancy between the publications of sale notice in English and Vernacular newspaper, then in such case the English newspaper will supersede the vernacular newspaper and it shall be considered as the final copy, thus removing the ambiguity. If the borrower/quarantors/mortgagers pay the amount due to Bank, in full before the date of sale, auction is liable to be stopped. However, in such cases,
- (15) Bidder shall be deemed to have read and understand the terms and conditions of sale and bound by them.
- For further details, contact the Authorised Officer Jagbeer Giri- Contact No. 9045002318 at above mentioned Branch office of Bank
  - 2. The Borrower/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors are also hereby informed that he/they must take delivery of their household effects, lying inside
- the above premises/under the custody of the Bank, if any within 30 days of this publication, with prior permission, failing which the Bank shall have no liability/responsibility to the same and will dispose of at the Borrower/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors risk and adjust the sale proceed towards
  - Sd/- Authorised Officer, Shivalik Small Finance Bank Ltd. Place: Meerut

Date of Inspection of Immovable properties: 07 Oct 2022.........1100 hrs – 1500 hrs

Reserve Earnest

- any other dues i.e., outstanding water/electric dues, property tax or other charges if any.
- should make their own assessment of the property to their satisfaction. Bank does not in any way guarantee or makes any representation about the
- Further interest will be charged as applicable, as per the Loan documents on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc., is due and payable till its realization.
- Please note that the secured creditor, the Bank is going to issue sale notice to all the Borrower/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors by POST by
- their addresses. In case, the same is not received by any of the parties, then this publication of sale notice may be treated as substituted mode of
- 3. If the Auction fails due to any reasons whatsoever, the Company would at liberty to sell the above mortgaged properties through private treaty as per

New Delhi

(13) Bank is not responsible for any liabilities upon the property which is not in the knowledge of the Bank.

provisions mandated under SARFAESI Act, 2002. Date: 06-09-2022

financialen epar.in

Place: New Delhi

Date: 07.09.2022

The e-voting instructions including unique number for first time e-voting user, Instructions for joining the AGM

By Order of the Board (Abhishek Singhania)

Date: September 07, 2022

The Government of India has received financing from the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) towards the cost of Assam

Electrical Circle on turnkey basis for Assam Distribution System The Chief Project Manager, PIU, APDCL, hereby invites online tenders

Detailed Invitation for Tender and Tender Documents are available at www.assamtenders.gov.in and at "AIIB Projects" button of www.apdcl.org. Sd/- Chief Project Manager, PIU, APDCL

बिजनेस रेमेडीज

दिनांक 08.09.2022 शेयर बाजार में टेडिंग के संबंध में....

दिनांक 07.09.2022 पर निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस @ 17655 पॉइंट पर :-

अगले कारोबार के लिए संभवित निफ्टी फ्यूचर 17606 अंक के सबसे महत्वपूर्ण स्तर 17575 अंक, 17505 अंक को छू सकता है और सबसे महत्वपूर्ण 17737 अंक के मजबूत स्टॉपलॉस के साथ कारोबार कर सकता है। निफ्टी फ्यूचर में 17808 अंक महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की स्थित...!!! दिनांक 07.09.2022 पर बैंक निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस @

39600 पॉइंट पर :-

अगले कारोबार के लिए संभवित बैंक निफ्टी फ्यूचर 39787 अंक के सबसे महत्वपूर्ण स्तर ३९९०९ अंक, 40044 अंक को छू सकता है और सबसे महत्वपूर्ण ३९३७३ अंक के मजबत स्टॉपलॉस के साथ कारोबार कर सकता है। बैंक निफ्टी फ्यूचर में 39202 अंक महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की स्थिति...!!!

#### अब नजर डालते हैं फ्यूचर्स स्टॉक सम्बंधित मूवमेंट पर...!!

इन्डिगो ( 1952 ) :- एरलाइन्स ञ्रुपकी इस अग्रणी कंपनी के शेयर की कीमत फिलहाल 1919 रूपये के आसपास है। 1808 रुपये के सख्त स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकने वाला यह स्टॉक कम समय में 1973 रुपये से 1980 रुपये की निर्धारित लक्ष्य की संभावना है...!! २००२ रुपये पर बुलिश ट्रेंड...!!!

एचडीएफरी बैंक ( 1487 ) :-तकनीकी चार्ट के अनुसार 1460 रुपये के आसपास सकारात्मक ब्रेकआउट!! 1444 रुपये के सपोर्ट से खरीदा जा सकने वाला स्टॉक 1497 रुपये से 1508 रुपये तक के लक्ष्य भाव की संभावना है...!!! एसबीआई लाइफ ( 1334 ) :-



निखिल भटट रिसर्च एनालिस्ट. सेबी पंजीकत

पहला स्टॉप लॉस 1303 रुपये और दूसरा स्टॉप लॉस 1288 रूपये के साथ, निवेश उन्मुख लाइफ



इन्स्युरेन्स सेक्टर का यह शेयर 1353 रुपये से 1360 रुपये तक का तेजी का रुख दिखाएगा...!!!

सन फार्मा (896):- फार्मा सेक्टर के शेयर में 909 रुपये से 919 रुपये तक की शॉर्ट टर्म टेडिंग क्षमता है...!! 880 रुपये के अनुमानित स्टॉपलॉस पर एक नज़र

ल्युपिन लिमिटेड ( 670 ) : - 02 रुपये का फेस वैल्यू वाला फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग यह स्टॉक करीब 646 रुपये स्टॉप लॉस के साथ खरीदने के लिए उपलब्ध है। फार्मा के इस स्टॉक में लगभग 676 रुपये से 684 रुपये तक लक्ष्य की

हीरो मोटोकॉर्प ( 2864 ) :-तकनीकी चार्ट के अनुसार 2/3 व्हीलर सेक्टर के इस शेयर का लक्ष्य करीब 2840 रूपये से 2828 रुपये के आसपास के मुनाफे पर बिकवाली होने की संभावना है।

व्यापारिक उद्देश्यों के लिए 2909 रुपये का स्टॉपलॉस ध्यान में रखें...!!!

रिलायंस इंडस्ट्रीज ( 2589 ) :- इस शेयर को २६०८ रुपये के स्टॉप लॉस पर. लगभग २६१८ रूपये में एक ओवरबोट स्थिति दर्ज करते हुए बेचा जा सकता है..!! इसकी कीमत 2573 रुपये से 2560 रुपये चरणें में दिखाने की संभावना है...!! 2630 रुपये के स्तर पर एक तेजी का माहोल...!!!

एचडीएफरी लिमिटेड ( 2433 ):-हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सेक्टर का यह स्टॉक २४७४ रुपये के स्टॉपलॉस के साथ बिक्री के लिए है। प्रतिक्रियात्मक कमी के साथ 2404 रुपये से 2390 रुपये के मृत्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!!

सिपला लिमिटेड ( 1056 ):- चार्ट के मुताबिक फार्मा सेक्टर के इस शेयर को करीब 1073 रुपये स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1040 रुपये से 1027 रुपये का टारगेट प्राइस रहने की संभावना है। टेडिंग के लिए 1080 रुपये का सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!!

टाटा मोटर्स ( 447 ) :- इस शेयर को करीब ४६४ / ४७० रुपये का स्टॉपलॉस साथ बेचकर की टारगेट प्राइस ४३७ रुपये से लेकर ४२४ रुपये तक रहने की संभावना है. 474 रुपये पर बुलिश ट्रेंड...!!! लेखक सेबी पंजीकृत अनुसंधान

विश्लेषक और इन्वेस्टमेंट पोइन्ट के मालिक हैं। लेखक सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक और इन्वेस्टमेंट पोइन्ट

विशेष नोट:- डिस्कलमर / नीति / शर्ते www.nikhilbhatt.in के

नोटः शेयरों में निवेश करने से पूर्व निवेशकों को वित्तीय सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए।

# अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट की बिक्री कर रही है 'ईशान इंटरनेशनल लि.'

9 सितम्बर को खुलकर 14 सितम्बर को बंद होगा कंपनी का आईपीओ



**बिजनेस रेमेडीज/जयपुर।** नई दिल्ली आधारित कंपनी 'ईशान इंटरनेशनल लि.' अंतर्राष्ट्रीय बाजारों हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट की बिक्री कर रही है। कंपनी द्वारा प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम को फंडिंग या अधिग्रहण के लिए व कार्यशील पुंजी जुटाने के लिए एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर आईपीओ लाया जा रहा है। बिजनेस रेमेडीज की टीम ने कंपनी प्रबंधन से कंपनी की कारोबारी गतिविधियों के संबंध में जानकारी हासिल की।

कंपनी की कारोबारी गतिविधयांः ईशान इंटरनेशनल का इनकॉर्पोरेशन वर्ष 1995 में हुआ था। कंपनी प्रोजेक्ट्स का कॉन्ट्रेक्ट लेती और उन्हें स्थापित करती है। कंपनी का फोकस शूगर प्लांट, गुड़ प्लांट, फॉर्मास्यूटिकल प्लांट, हाइड्रोपॉवर प्लांट और पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स की मशीनों की आपूर्ति, इरेक्शन/इंस्टालेशन, कमिशनिंग एवं ऑपरेशनल ट्रेनिंग मुहैया कराने पर है। इसके साथ ही कंपनी हाइड्रो पॉवर, शूगर एंड गुड, फॉर्मास्युटिकल्स एवं पॉल्युशन कंट्रोल सिस्टम्स संबंधित सभी गतिविधियों में हाई-एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशन्स मुहैया करवा रही है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विशेषकर फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के प्रमुख ग्राहकों जैसे बुस्को शुगर मिलिंग कंपनी आईएनसी, यूनिवर्सल आररोबिना कॉर्पोरेशन सी ग्रुप, फर्स्ट फार्मर होल्डिंग कॉर्पोरेशन एफएफएचसी, सोनेडको, सनवेस्ट, नवेटको-नेशनल वेटरनरी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, मिन्ह डैन फार्मास्युटिकल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, थिएन टैन, सोंग दा ग्रुप, एनसीसी, कोसी ग्रुप, टै लिन्ह, पीबीटी पीटी, पूर्णमा बोहलर टेक्नोलॉजी और जीएमएमपीटी को हाई-एंड हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मुहैया करवा रही है। कंपनी ने फिलीपींस, इंडोनेशिया. हनोई (वियतनाम) हों ची मिन्ह सिटी (वियतनाम) में ऑफिस स्थापित किए हैं। वहीं केन्या में ऑफिस स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड के उत्पादों में ईएसपी, गुड़ प्लांट एंड इक्विपमेंट, केन क्रशिंग इक्विपमेंट, मिल चीक्स. गियर बॉक्स. रोप कपलिंग्स. रोपलेस कपलिंग्स, स्क्वायर कपलिंग्स, ऑटोमेशन इक्विपमेंट, कम्प्लीट रोलर्स, बेयर शेल्स, हैमर टिप्स, शाफ्ट्स, जूस रिंग्स, फाइब्राइजर शामिल हैं। सहायक उपकरण, ग्रुविंग दूल्स, टैबलेटिंग मशीन, पाउडर फिलिंग लाइन, लिक्विड फिलिंग लाइन. लैब उपकरण. स्टरलाइजिंग टनल, वाशिंग मशीन, एएचयू, फिल्टर, डिस्टिलेशन यूनिट, स्वचालित हाई-स्पीड लेबलिंग मशीन, टैबलेट डिसॉल्यूशन टेस्ट उपकरण के साथ 1500 किलोवॉट मिल ड्राइव के लिए एसी मोटर , शुद्ध भाप जनरेटर इत्यादि प्रमुख हैं। कंपनी इंडस्ट्रीयल फेब्रिक की बिक्री भी करती है।

कंपनी का वित्तीय प्रदर्शनः वित्त वर्ष 2019 में कंपनी ने 27.08 करोड़ रुपये का राजस्व एवं ३९.६२ लाख रूपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ, वित्त वर्ष 2020 में 22.72 करोड़ रुपये का राजस्व और 28.42 लाख रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ, वित्त वर्ष 2021 में 22.71 करोड़ रुपये का राजस्व एवं १५.०५ लाख रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने मार्जिन में अच्छा सुधार दर्ज करते हुए २१.७४ करोड़ रुपये का राजस्व एवं 1.27 करोड़ रुपये कर कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2022 के अंत में कंपनी की कुल असेट २१.६८ करोड़ रूपये और नेटवर्थ 6.19 करोड़ रुपये दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने 2.58 रूपये का ईपीएस अर्जित किया है और उक्त वर्ष में कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21 फीसदी रहा है, जो कि शानदार कहा जा

कंपनी के प्रवर्तकों का अनुभवः



1000			
Ishan International IPO Date	Sep 9, 2022 to Sep 14, 2022		
Ishan International IPO Face Value	₹10 per share		
Ishan International IPO Price	₹80 per share		
Ishan International IPO Lot Size	1600 Shares		
Issue Size	2,280,000 shares of ₹10 (aggregating up to ₹18.24 Cr)		
Fresh Issue	2,280,000 shares of ₹10 (aggregating up to ₹18.24 Cr)		
Issue Type	Fixed Price Issue IPO		
Listing At	NSE SME		
NII (HNI) Shares Offered	50% of the net offer		
Retail Shares Offered	50% of the net offer		
Company Promoters	Mr. Shantanu Srivastava is the company promoter.		

कंपनी प्रवर्तक 67 वर्षीय शांतनु श्रीवास्तव कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ भी हैं। उन्होंने कानपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल विषय में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। केरियर के शुरुआती दौर उन्होंने हनाई, वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास में राजदूत के तौर पर 5 वर्षों सें अधिक समय तक काम किया। उन्होंने वियतनाम और भारत के कारोबारी रिश्ते मजबूत करने में अहम भमिका निभाई। उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र का व्यापक अनुभव है। उनके अनुभव के चलते ही उनकी कंपनी ईशान इंटरनेशनल वैश्विक स्तर पर अच्छा कारोबार कर रही है। उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्का भी हासिल हुए हैं। कंपनी के आईपीओ के संबंध में

आईपीओ ९ सितम्बर, २०२२ को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर ख़ुलकर १४ सितम्बर, 2022 को बंद होगा। कंपनी द्वारा 10 रुपये फेसवेल्यू के 2280000 शेयर 80 रुपये प्रति शेयर के भाव से जारी कर 18.24 करोड़ रुपये जुटाए जा रहे हैं। कंपनी के आईपीओ का मार्केट लॉट साईज 1600 शेयरों का है यानि कि निवेशकों को कंपनी का एक लॉट खरीदने के लिए 1.28 लाख रूपये निवेश करने होंगे। आईपीओ में 50 फीसदी शेयर एनआईआई कैटेगरी और 50 फीसदी शेयर रिटेल कैटेगरी के निवेशकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। कंपनी के आईपीओ का प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी फर्स्ट ओवरसीज केपिटल लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

जानकारीः 'ईशान इंटरनेशनल लि.' का

# एक्सिस बैंक और पेनियरबाय के बीच हुई साझेदारी

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई। देश में निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक, एक्सिस बैंक ने समस्त रिटेल विक्रेताओं और ग्राहकों दोनों के लिए बचत और चालू बैंक खातों को निर्बाध रूप से खोलने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत के सबसे बड़े ब्रान्चलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क पेनियरबाय के साथ भागीदारी की है। आधार के जरिये ऑथेंटिकेट (ई-केवाईसी) होने वाले इन बैंक खातों को नजदीकी स्थानीय स्टोर में खोलने से ग्राहकों के लिए आसान पहुंच, अधिक सुविधा और परेशानी मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। इस साझेदारी के जरिये एक्सिस बैंक और पेनियरबाय को देश के दूरदराज के क्षेत्रों में संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में आसानी होगी, और उनके सामने आने वाली सामान्य समस्याओं को दूर करेगी, जैसे दस्तावेजीकरण की परेशानी, लंबी प्रक्रिया से



मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज ने बाजार शोध और

विश्लेषण प्लेटफॉर्म 'रिसर्च 360' को लॉन्च किया

गजरना. टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल. बैंक का नजदीक में नहीं होना या औपचारिक माहौल के कारण होने वाली असुविधा।

इस पहल के माध्यम से एक्सिस बैंक 20,000 से अधिक पिन कोड में पेनियरबाय के 50 लाख से ज्यादा माइक्रो-एंटरप्रेन्योर्स के तकनीक-समर्थित डिस्ट्रीब्यू शन-एज-ए-सर्वि स (डीएएएस) नेटवर्क का लाभ उठा सकेगा, जिससे यह सुनिष्टिचत होगा कि विश्वसनीय और आसानी से उपलब्ध वित्तीय समाधान पूरे देश में हासिल हो सकें। एक्सिस बैंक के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, परिचालन संबंधी बेहतर प्रक्रियाएं और ब्रांड विश्वसनीयता के सहारे इस साझेदारी का उद्देश्य देश में बैंकिंग को नए सिरे से परिभाषित करना और भारत में हर छोटे व्यवसाय और घर के लिए एक सक्रिय बैंक खाता प्रदान करने के प्रयासों में तेजी लाना है। यह साझेदारी खुदरा दुकान मालिकों और व्यक्ति गत ग्राहकों के लिए बैंकिंग को आसान बनाएगी, और उन्हें अपने बैंक खातों को संचालित करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता भी नहीं होगी।

# टेन्सा एक्स इन्क्यूबेशन सेंटर की हुई शुरुआत

**बिजनेस रेमेडीज/जयपुर।** पिंक सिटी की एआई आधारित प्रमुख टेक कंपनी टेन्सा एक्स इनोवेशन लेब की ओर से बुधवार को सिद्धार्थ नगर स्थित परिसर में टेन्सा एक्स इन्क्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की गई। इस मौके पर एसबीआई होल्डिंग्स इंक जापान (पूर्ववर्ती सॉफ्ट बैंक

प्रकार तैयार किया जाएगा ताकि एंजेल इन्वेस्टर और फंडिंग इंस्टीट्यूशन्स से फंडिंग हासिल करने के लिए वे सक्षम हो सकेंगे। इसके लिए विभिन्न कॉलेज-इंस्टीट्यूशन्स



में युवाओं से संवाद कर उन्हें अपने आइडिया को फण्डिंग के स्तर तक ले जाने में सहयोग प्रदान करेंगे। सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स इंक जापान के वाइस प्रेसिडेंट मनीष मिश्रा ने कहा कि टेन्सा एक्स इन्क्यूबेशन सेंटर की मेंबरशिप के जरिए नए स्टार्टअप आइडियाज और इनोवेशन को न केवल तकनीकी सहयोग मिलेगा, बल्कि उन्हें पर्याप्त मार्गदर्शन भी मिलेगा. ताकि तकनीकी और वित्तीय स्तर पर भी वे सक्षम हो सकें।

इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स इंक जापान) के वाइस प्रेसिडेंट मनीष मिश्रा. टेन्सा एक्स इन्क्यबेशन सेंटर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर आर्यन सिंह, डायरेक्टर नरेन्द्र सिंह, हैड ऑफ रिसर्च एण्ड एकेडिमक्स डॉ. विशु गुप्ता मौजूद रहे। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर आर्यन सिंह ने बताया कि टेन्सा एक्स इन्क्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप कंपनियों को उनके आइंडिया के स्तर पर मेंबरशिप प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें आधुनिक तकनीक के माध्यम से इस

### स्टरलाइट पावर ने गुजरात में शेड्यूल से चार महीने पहले 400 केवी की महत्वपूर्ण ट्रांसिमशन लाइन चालू की

बिजनेस रेमेडीज/एजेंसी। स्टरलाइट पावर की मुंबई ऊर्जा

मार्ग ट्रांसिमशन लिमिटेड (एमयूएमएल) ने गुजरात में 400 केवी की बनासकांठा, कंसारी और वादावी ट्रांसिमशन लाइन को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। यह हाई वोल्टेज ट्रांसिमशन लाइन उत्तर गुजरात के भुज पूलिंग स्टेशन से मेगावाट नवीकरण योग्य बिजली को निकालने और उसे नेशनल ग्रिड में पहुँचाने में मदद करेगी। इसके अलावा, यह ट्रांसिमशन लाइन अपने शेड्यूल से 4 महीने पहले चालू हुई है और राज्य में बिजली के संवहन की उपलब्ध क्षमता को उल्लेखनीय ढंग से

# ///Sterlite Power

बढ़ाएगी; इसे 9300 मेगावाट से बढ़ाकर 11200 मेगावाट तक पहुँचा देगी।यह महत्वपूर्ण ट्रांसिमशन लाइन बड़ी वेस्टर्न रीजन स्ट्रेन्थनिंग स्कीम- XIX (WRSS-XIX) और नॉर्थ-ईस्टलर्न रीजन स्ट्रेन्थनिंग स्कीम- IX (NERSS-IX) का हिस्सा है। यह मौजूदा 400 केवी डी/सी बनासकांठा-वेलोदा, 400 केवी एस/सी भिनमाल-जेर्बा (कंसारी) और 400 केवी एस/सी कंक्रोली-जेर्बा (कनसारी) ट्रांसिमशन लाइंस के बोझ को कम करते हुए क्षेत्रीय नेटवर्क को भी आराम देगी या डिकंजेस्टस करेगी।

### सोनी मेडिकेयर लिमिटेड

CIN: L51397RJ1988PLC004569

पंजीकृत कार्यालयः ३८, कानोता बाग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान-302004

वेबसाईटः www.sonihospitals.com ई-मेलः cs@sonihospitals.com फोन नं. : 0141-5163700 एतब्रह्मारा सूचना दी जाती है कि सोनी मेडिकेयर लिमिटेड (' कंपनी') के सबस्यों की

34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को दोपहर 03:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 38, कनोटा बाग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर RJ 302004 IN पर आयोजित की जाएगी।

संबंधित सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-2022 की वार्षिक रिपोर्ट आदि कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनका नाम 26 अगस्त, २०२२ को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है और जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.sonihospitals.com पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

सदस्यों द्वारा ईमेल पतों को पंजीकृत/ अपडेट करने का तरीका नीचे दिया गया है: यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की रकैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की रव-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) ईमेल द्वारा cs@sonihospitals.com पर प्रदान करें

यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति) आधार (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) cs@sonihospitals.com पर प्रदान करें।

रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को सुबह 9 बजे IST से शुरू होगी और गुरुवार, २९ सितंबर, २०२२ को शाम ०५.०० बजे समाप्त होगी। कंपनी के सदस्य, कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2022 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने

वाले, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका नीचे दिया गया है:

\* एजीएम के नोटिस में डीमैटरियलाइज्ड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और अपने ईमेल पते को पंजीकृत नहीं करने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से ('रिमोट ई-वोटिंग') मतदान का तरीका प्रदान किया गया है। विवरण कंपनी की वेबसाइट www.sonihospitals.com पर भी उपलब्ध होगा

\* ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सबस्यों को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन सबस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन क्रेडेंशियल उत्पन्न कर सकते हैं। उक्त एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शनिवार, 24 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

तिथि: 03-09-2022

बोर्ड के आदेश द्वारा वास्ते सोनी मेडिकेयर लिमिटेड हस्ता/-

> पूजा शर्मा कंपनी सचिव

#### और तकनीकी अनुसंधान के लिहाज से एक केंद्रीकृत सोर्स के रूप में कार्य करेगा जो इक्विटी, डेरिवेटिव, म्युचुअल फंड, थीमैटिक (थीम आधारित) और मॉडल पोर्टफोलियो आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विवेकपूर्ण निवेश या व्यापारिक निर्णय लेने में मदद करेगा। रिसर्च 360 एप निवेशकों की डीआईवाय (DIY) श्रेणी के साथ-साथ रेडीमेड शोध

समाधानों की तलाश करने वाले

**बिजनेस रेमेडीज/जयपुर।** मोतीलाल

ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज

लिमिटेड (एमओएफएसएल) ने एक

नये प्रकार का पहला वित्तीय बाजार शोध और विश्लेषण मंच 'रिसर्च निवेशकों के लिए एक उत्कृष्ट और 360' को लॉन्च करने की घोषणा अनूठा प्रस्ताव है। 'रिसर्च 360' का की है। यह अनूठा मंच निवेशकों और व्यापारियों के लिए विस्तृत मौलिक लॉन्च वित्त वर्ष 23 में डिजिटल उत्पादों के पोर्टफोलियो के विस्तार का एक हिस्सा है।

रिसर्च ३६० प्लेटफॉर्म में मुख्य निवेशक पोर्टफोलियो जैसी अनूठी विशेषताएं हैं, जिससे नौसिखिए निवेशक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने के शिल्प को समझ सकते हैं। टेक्नो-फंडा स्कैनर्स परिपक्व निवेशकों को एक मेन्यू में कीमत, वॉल्यूम, फंडामेंटल जैसे तकनीकी संकेतकों आदि से संबंधित 200 से

अधिक स्कैन का लाभ देता है। यह एप एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस, कम्पेयरिंग स्टॉक्स, एफएंडओ एनालिटिक्स,

एमओ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज रिसर्च रिपोर्ट्स और एसे इनवेस्टर्स पोर्टफोलियो जैसी अन्य प्रमुख विशेषताएं भी प्रदान करता है। इस उत्पाद के लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड के ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सीईओ अजय मेनन ने कहा, 'खुदरा निवेशक इक्विटी बाजारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

सक्रिय डीमैट खातों की संख्या 89.7 मिलियन थी जो वित्त वर्ष 2022 में 63% की वृद्धि दर्शाती है। हमें लगता है कि पूंजी बाजार में निवेश किसी एक द्वारा चुने गए निवेश के बारे में विस्तृत शोध के बाद किया जाना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल 35 से अधिक वर्षों से इक्विटी बाजारों में हैं और उन्होंने हमारे शोध क्षेत्र तक सभी निवेशकों को पहुंच प्रदान करने के बारे में सोचा, भले ही वह हमारे ग्राहक हों या नहीं। हमारी नवीनतम पेशकश, रिसर्च ३६० सभी निवेशकों को मोतीलाल ओसवाल के पुरस्कार विजेता शोध तक पहुंच प्रदान करेगी और उन्हें निवेश संबंधी निर्णय लेने में मदद करेगी।''

31 मार्च 2022 तक भारत में

লযাभযা 1000